



CHL LIMITED

New Friends Colony, New Delhi 110 025

T +91 11 2683 5070, 4750 6080

F +91 11 2683 7758, 4750 6081

CHL/SECT/BSE/2025

11th November, 2025

The Asstt. General Manager
Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P J Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

SCRIP CODE 532992

Sub: Copy of Newspaper Advertisement of the Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2025

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement of Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2025 published in the Business Standard (English and Hindi) on 11th November 2025.

Please take same on your records.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For CHL Limited

Ayush Rai
Company Secretary
M.No. A61075



Encl: As below

The Suryaa New Delhi
(A Unit of CHL Ltd.)
ISO 22000:2018 CERTIFIED
www.thesuryaa.com

Email : chl@chl.co.in

CIN : L55101DL1979PLC009493



Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)				
Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property/properties (B)	Date Of NPA (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	LOAN ACCOUNT NO. HLLABRL00504802 1. M/S. ASAN ENTERPRISES THROUGH ITS PARTNER 2. ARADHNA PARTNER M/S. ASAN ENTERPRISES 3. URMILA 4. SADHNA YADAV 5. PREM SINGH YADAV 6. ASHISH KUMAR	ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND / PROPERTIES AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE STRUCTURES, BUILDINGS, FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS STANDING AND / OR PLANT AND MACHINERY INSTALLED / TO BE INSTALLED AND / OR CONSTRUCTED / TO BE CONSTRUCTED THEREON AND ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE RIGHTS, TITLE AND / OR INTERESTS OF URMILA THEREIN : RESIDENTIAL PLOT, HAVING AREA 138.37 SQ. M. FROM FIELD NUMBER 1105, VILLAGE KARELI PARGANA, TEHSIL AND DISTRICT – BAREILLY 243001, UTTAR PRADESH	03.10.2025	Rs. 24,97,414.72/- (Rupees Twenty Four Lakh Ninety Seven Thousand Four Hundred Fourteen and Paise Seventy Two Only) as on 31.10.2025
That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount. Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower. In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding due indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law. Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property." In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.				
For Sammaan Finserve Limited (Formerly known as Indiabulls Commercial Credit Ltd.) Authorized Officer				
Place : BAREILLY				



Piramal

Finance

PIRAMAL FINANCE LTD.

(Formerly Known as Piramal Capital and Housing Finance Corporation Ltd.)

CIN: L65910MH1984PLC032639

Registered Office: Unit No.-601, 6th Floor, Piramal Amitil Building, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, Opp. Fire Station, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai-400070 -T +91 22 3802 4000. Branch Office: Unit No. 01 & 09, Ground Floor, GD-TIL North Ex Tower,Plot No. A-9, Netaji Subhash Place, New Delhi – 110034 & Plot No-6, Block-A 2nd Floor, Sector 2, Noida – 201301

POSSESSION NOTICE For Immovable Property as per Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and Appendix- IV


Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Piramal Finance Ltd. (Formerly Known as Piramal Capital and Housing Finance Corporation Ltd.) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Piramal Finance Ltd. (Formerly Known as Piramal Capital and Housing Finance Corporation Ltd) for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

S. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date and Amount	Date of Possession
1.	(Loan Code No 13300000668) (Branch - Delhi - Pitampura), Anil Kumar (Borrower), Anupam (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Flat No-1002, 10TH Floor Ivory Toer, S G Impressions-58 Noor Nagar, Nh-58 Ghaziabad Ghaziabad Uttar Pradesh:- 201111	30/01/2023 for Rs. 11,35,670 (Eleven Lakhs Thirty Five Thousand Six Hundred and Seventy Only)	10-11-2025
2.	(Loan Code No 14600001657) (Branch - Meerut), Gajender Kumar (Borrower), Savita Devi (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Part Of Plot No. 49 58 Vikas Enclave, Vil Anoop Nagar Fazalpur Rohta Road Meerut Meerut Uttar Pradesh :- 250001	30/01/2023 for Rs.55,78,859 (Five Lakhs Fifty Seven Thousand Eight Hundred and Fifty Nine Only)	10-11-2025
3.	(Loan Code No 28300000152) (Branch - Rohtak), Ram Dhan Saini (Borrower), Munesh (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Plot No 106 Western Part Western Partshivh Nagar Near Singhapura Jind Rail Line Rohtak Rohtak Haryana :- 124001	27/10/2023 for Rs. 3,12,084 (Three Lakhs Twelve Thousand and Eighty Four Only)	10-11-2025
4.	(Loan Code No BLSA00006543) (Branch - Delhi), SUSHRELA DEVI (Borrower), SANDEEP (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Plot No 70A, Property Id No 22C3741068 Khasra No Min 62436251,17688/6253, 17691/6250,16584/6244,6252 Min 6251 Kacha Chamariya Road Rohtak Haryana :- 124001	24/02/2025 for Rs. 497,717.71 (Rupees Four Lakh Ninety Seven Thousand Seven Hundred Seventeen Only)	10-11-2025
5.	(Loan Code No 28600002438) (Branch - Hardwar), Nikhil Sharma (Borrower), Kavita Sharma (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Part Of Khasra No-1509,sky World School Gram-salempur Rajputan Pargna-bhagwanpur Hardwar Saharanpur Uttar Pradesh :- 247661	5/12/2021 for Rs. 18,12,149 (Eighteen Lakhs Twelve Thousand One Hundred and Forty Nine Only)	07-11-2025
6.	(Loan Code No 9700002915) (Branch - Dehradun), Shadab Alam Ansari (Borrower), Vakeel Ahamed (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Municipal No 22 Present Municipal No 22/1 Shivaji Marg Situated At Kanwali Road Dehraudun Dehradun Uttaranchal :- 248001.	5/12/2021 for Rs. 13,28,893 (Thirteen Lakhs Twenty Eight Thousand Eight Hundred and Ninety Three Only)	07-11-2025

Place: Uttar Pradesh, Date : 10-11-25


(Authorized Officer)
Piramal Finance Ltd.

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)				
Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property / properties (B)	Date Of NPA (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	LOAN ACCOUNT NO. HHLLAJ00516435 / HHLELAJ00516437 1. PANKAJ SINGH 2. JYOTI	ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND / PROPERTIES AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE STRUCTURES, BUILDINGS, FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS, STANDING AND / OR FUTURE RIGHTS, TITLE AND / OR INTERESTS OF MORTGAGORS THEREIN: FLAT NO. SF 3 HAVING COVERED AREA OF 550 SQ. FT. I. E. 51.09 SQ. MTRS., ON THE 2ND FLOOR, WITH ROOF RIGHT, REAR LEFT HAND SIDE, CONSTRUCTED ON PLOT NO. A 7/5 DLF ANKUR VIHAR LONI DISTRICT GHAZIABAD - 201102 UTTAR PRADESH.	05.03.2025, (referred as Loan Agreement No. 1) & 03.09.2025 (referred as Loan Agreement No. 2)	Rs. 19,58,142/- (Rupees Nineteen Lakh Fifty Eight Thousand One Hundred Forty Two and Only) (against loan facility no. 1) and Rs. 90,774.34/- (Rupees Ninety Thousand Seven Hundred Seventy Four and Paise Thirty Four Only) (against loan facility no. 2) having total outstanding amount of Rs. 20,48,916.34/- (Rupees Twenty Lakh Forty Eight Thousand Nine Hundred Sixteen and Paise Thirty Four Only) (against loan facilities no. 1 and 2) as on 24.10.2025
2.	LOAN ACCOUNT NO. HHLGRG00545863/ HHEGRG00545763 1. AVNEET KUMAR RAGHAV 2. SUNITA RAGHAV	ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND / PROPERTY AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE STRUCTURES, BUILDINGS, FURNITURE, FIXTURE, FITTINGS, STANDING AND / OR PLANT AND MACHINERY INSTALLED / TO BE INSTALLED AND / OR CONSTRUCTED / TO BE CONSTRUCTED THEREON AND ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE RIGHTS, TITLE AND / OR INTEREST OF SUNITA RAGHAV THEREIN: ENTIRE SECOND FLOOR WITHOUT ROOF / TERRACE RIGHTS, BUILT ON LAND AREA MEASURING 100 SQ. YDS., OF BUILT UP PROPERTY BEARING NO. 88 & 88 - A, OUT OF KHASRA NO. 9, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE BINDAPUR, COLONY KNOWN AS T-BLOCK, UTTAM NAGAR, GALI NO. 3, NEW DELHI - 110059, ALONGWITH COMMON 1/4TH UNDIVIDED SHARE (FOR ONE CAR AND ONE TWO WHEELER PARKING RIGHT) IN PARKING AREA AT STILT FLOOR, DULY FITTED WITH ELECTRICITY AND WATER CONNECTION IN RUNNING CONDITION, ALONGWITH PROPORTIONATE (25%) UNDIVIDED SHARE IN AND RIGHTS UNDERNEATH THE SAID PROPERTY, WITH COMMON PASSAGE AND STAIRCASE LEADING FROM GROUND FLOOR TO TOP FLOOR ALONGWITH WITH ALL OTHER COMMON FACILITIES OF THE BUILDING.	03.10.2025	Rs. 35,42,857.79/- (Rupees Thirty Five Lakh Ninety Seven Thousand Eight Hundred Fifty Seven and Paise Seventy Nine Only) (against loan facility no. 1) and Rs. 1,21,902.62/- (Rupees One Lakh Twenty One Thousand Nine Hundred Two and Paise Sixty Two Only) (against loan facility no. 2) having total outstanding amount of Rs. 36,64,760.41/- (Rupees Thirty Six Lakh Sixty Four Thousand Seven Hundred Sixty and Paise Forty One Only) (against loan facilities no. 1 and 2) as on 25.10.2025
3.	LOAN ACCOUNT NO. HHLLAJ00253588 1. AMIT MUNDRA 2. RESHU MUNDRA	FLAT NO. P - 2/10 - C ON THE 2ND FLOOR, MEASURING 1066 SQ. FT., SUPER BUILT-UP AREA IN POCKET P - 2, IN THE "SRS PEARL FLOORS" SRS CITY, SECTOR - 87 FARIDABAD - 121002 HARYANA.	03.10.2025	Rs. 34,54,868.66/- (Rupees Thirty Four Lakh Fifty Four Hundred Eight Hundred Sixty Eight and Paise Sixty Six Only) as on 24.10.2025
4.	LOAN ACCOUNT NO. HLABRL00564040 1. MONIKA KACKER PROPRIETOR M/S. CUTS AND CURVES 2. ASHWANI KUMAR KACKER PROPRIETOR M/S. KACKER ENTERPRISE	ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND / PROPERTIES AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE STRUCTURES, BUILDING, FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS, STADING AND / OR PLANT AND MACHINERY INSTALLED / TO BE INSTALLED AND / OR CONSTRUCTED / TO BE CONSTRUCTED THEREON AND ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE RIGHTS, TITLE AND/OR INTEREST OF ASHWANI KUMAR KACKER THEREIN: HOUSE/BUNGALOW NO. 149A/263, HALL NO. 1021/1, HAVING AREA OF THE PROPERTY 820.36 SQ. MTRS. AND TOTAL COVERED AREA IS 300 SQ. MTRS. AND 28. SQ.MTRS. AND 194 SQ. MTRS. TIN SHED SITUATED AT VILLAGE PRE BHAWAN CIVIL LINES BAREILLY - 243001, UTTAR PRADESH.	08.10.2025	Rs. 4,36,46,115.13/- (Rupees Four Crore Thirty Six Lakh Forty Six Thousand One Hundred Fifteen and Paise Thirteen Only) as on 28.10.2025
That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount. Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower. In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding due indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law. Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property." In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.				
For SAMMAAN CAPITAL LIMITED (Formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) Authorized Officer				
Place : GHAZIABAD / NEW DELHI / FARIDABAD / BAREILLY				



CHL LIMITED

Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025
Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: cs@chl.co.in
CIN No: L55101DL1979PLC009498



SURYAA

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30th SEPTEMBER 2025

(INR In Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,376.75	2,681.44	4,779.81	4,849.44	11,134.38	3,545.28	3,766.98	7,149.94	7,049.92	15,229.92
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	(581.69)	753.82	98.70	1,276.67	3,550.74	(1,340.96)	(36.93)	(1,246.60)	(238.19)	887.28
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	(581.69)	753.82	98.70	1,276.67	3,436.57	(1,340.96)	(36.93)	(1,246.60)	(238.19)	773.12
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	(444.27)	563.91	98.70	954.62	2,492.56	(1,203.54)	(226.85)	(1,285.56)	(560.24)	(170.90)
5	Total comprehensive income for the period [comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense)]	(444.27)	563.91	59.74	954.62	2,475.01	(2,740.03)	(324.92)	(3,228.70)	(1,082.17)	(678.23)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	-0.81	1.03	0.11	1.74	4.51	(5.00)	(0.59)	(5.89)	(1.97)	(1.24)

** Reserves for standalone as on 31.03.2025, is Rs. 16,839.82 Lacs and for consolidated is Rs. (13,198.84) Lacs

NOTES:

1) The above is an extract of the detailed format of quarter & half year ended 30.09.2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter & half year ended 30.09.2025 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chl.co.in).

2) The results for the quarter & half year ended 30.09.2025 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company.

3) The above results can be viewed on the website of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).

By Order of the Board

CHL LIMITED

Sd/-

(Luv Malhotra)

Managing Director

DIN 00030477

Place : New Delhi

Date : 10th November, 2025

ARSS

ARSS INFRASTRUCTURE PROJECTS LIMITED

Regd. Office : Plot No.: 38, Sector-A, Zone-D, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar, Odisha - 751010
Corp. Office : ARSS Mall, Plot no-40, Community Centre, Block-A,Paschim Vihar,Opp-Jwalaheri Market, New Delhi - 110063
E-mail : cs@arssgroup.in, Website: www.arssgroup.in, CIN: L14103OR2000PLC006230

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2025

Key numbers of Financial Results

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended		Half year ended		Year ended	Quarter ended		Half year ended		Year ended		
		30.09.2025 (Reviewed)	30.06.2025 (Reviewed)	30.09.2024 (Reviewed)	30.09.2025 (Reviewed)	30.09.2024 (Reviewed)	31.03.2025 (Audited)	30.09.2025 (Reviewed)	30.06.2025 (Reviewed)	30.09.2024 (Reviewed)	30.09.2025 (Reviewed)	30.09.2024 (Reviewed)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Revenue from Operations	1,141.00	1,868.19	3,366.46	3,009.19	12,043.99	16,538.80	1,141.00	1,868.19	3,366.46	3,009.19	12,043.99	16,538.80
2.	Net Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(415.98)	(11,516.90)	42.47	(11,932.88)	137.29	(835.69)	(417.55)	(11,520.87)	42.47	(11,938.43)	137.29	(837.79)
3.	Net Profit/(Loss) before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(322,734.60)	(11,516.90)	42.47	(334,251.50)	137.29	(835.69)	(322,702.72)	(11,518.78)	106.88	(334,221.51)	218.87	(662.90)
4.	Net Profit / (Loss) after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(322,770.03)	(11,552.48)	53.59	(334,322.51)	110.15	(949.37)	(322,738.15)	(11,554.36)	118.00	(334,292.52)	191.73	(776.57)
5.	Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after Tax and Other Comprehensive Income after tax]	(322,770.03)	(11,552.48)	53.59	(334,322.51)	110.15	(949.37)	(322,738.15)	(11,554.36)	118.00	(334,292.52)	191.73	(776.57)
6.	Equity Share Capital	1,511.85	2,273.80	2,273.80	1,511.85	2,273.80	2,273.80	1,511.85	2,273.80	2,273.80	1,511.85	2,273.80	2,273.80
7.	Earnings per share (of ₹10/- each) Basic & Diluted (Rs.)	(1,428.25)	(50.81)	0.24	(1,479.36)	0.48	(4.18)	(1,428.11)	(50.82)	0.52	(1,479.23)	0.84	(3.42)

Notes:

a) The above standalone & consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter and half Year ended September 30, 2025 have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on November 10, 2025. These results are being published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

b) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Standalone and consolidated unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Standalone and consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2025 are available on the website of the Stock Exchanges - www.bseindia.com & www.nseindia.com as well as on the website of the Company - www.arssgroup.in.
<http://arssgroup.in/PDF/QuarterlyResult/Board%20Meeting%20Outcome%2030.09.2025.pdf>

Date : 10th November, 2025



Place : Bhubaneswar

-Sd-

(Gopal Krishna Dash)



Managing Director

DIN : 10776309

		DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED				
CIN: L72200KA1973PLC002308						
Regd. Office : JKM Plaza, Dynamatic Aerotropolis, 55, KIADB Aerospace Park, Bangalore-562 149, India. Ph: +91 80 2111 1223, +91 80 2204 0535 www.dynamics.com email: investor.relations@dynamics.net						
STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025						
(INR in Lakhs, except as otherwise stated)						
Particulars	3 months ended 30 September 2025 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 30 June 2025 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in previous period 30 September 2024 (Unaudited)	Year to date figure for the current period ended 30 September 2025 (Unaudited)	Year to date figure for the previous period ended 30 September 2024 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2025 (Audited)
Revenue from operations	39,238	37,093	36,142	76,331	70,770	1,40,380
Net profit before tax after exceptional items	1,164	1,533	1,604	2,697	2,775	5,511
Net profit after tax	331	1,077	1,203	1,408	2,342	4,304
Total comprehensive income for the period	894	3,851	2,925	4,745	4,128	5,451
Equity Share Capital	679	679	679	679	679	679
Reserve	-	-	-	-	-	71,071
Earning Per Share (Face value of INR 10):	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)
Basic & Diluted (in INR)	4.87	15.86	17.72	20.74	34.49	63.39
Notes:						
1. The above is an extract of the detailed format for the quarter and six months ended 30 September 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosures Requirements) Regulations 2015. The full format for the same are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.dynamics.com .						
2. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated 5 July 2016.						
3. The above consolidated financial results of the Company has been reviewed by the Audit Committee and has been approved by the Board of Directors at their meetings held on 10 November 2025. The results for the quarter and six months ended 30 September 2025 has been reviewed by the Statutory auditors of the Company. The Statutory Auditors of the Company has issued an unmodified conclusion in respect of the limited review for the quarter and six months ended 30 September 2025. The reports of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange ("BSE") and the National Stock Exchange ("NSE") and is also available on the Company's website at www.dynamics.com .						
4. Additional information on standalone financial results is as follows:						
(INR in Lakhs, except as otherwise stated)						
Particulars	3 months ended 30 September 2025 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 30 June 2025 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in previous period 30 September 2024 (Unaudited)	Year to date figure for the current period ended 30 September 2025 (Unaudited)	Year to date figure for the previous period ended 30 September 2024 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2025 (Audited)
a) Revenue from operations	18,255	17,760	16,688	36,015	31,517	63,918
b) Net profit before tax	1,918	2,120	2,156	4,038	3,439	5,431
c) Net Profit after tax	1,475	1,535	2,099	3,010	3,027	5,066
<div></div> <div>For and on behalf of the Board of Directors Sd/- UDAYANT MALHOUTRA CEO and Managing Director Dynamatic Technologies Limited DIN: 00053714</div>						
Place : Bangalore Date : 9 November, 2025						



संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742

<div><div></div><div><div>CHL LIMITED</div><div>Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025 Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: cs@chl.co.in CIN No: L55101DL1979PLC009498</div></div><div></div></div>											
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30 th SEPTEMBER 2025											
(INR in Lacs)											
Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,376.75	2,681.44	4,779.81	4,849.44	11,134.38	3,545.28	3,766.98	7,149.94	7,049.92	15,229.92
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	(581.69)	753.82	98.70	1,276.67	3,550.74	(1,340.96)	(36.93)	(1,246.60)	(238.19)	887.28
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	(581.69)	753.82	98.70	1,276.67	3,436.57	(1,340.96)	(36.93)	(1,246.60)	(238.19)	773.12
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	(444.27)	563.91	98.70	954.62	2,492.56	(1,203.54)	(226.85)	(1,285.56)	(560.24)	(170.90)
5	Total comprehensive income for the period [comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense)]	(444.27)	563.91	59.74	954.62	2,475.01	(2,740.03)	(324.92)	(3,228.70)	(1,082.17)	(678.23)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	-0.81	1.03	0.11	1.74	4.51	(5.00)	(0.59)	(5.89)	(1.97)	(1.24)
** Reserves for standalone as on 31.03.2025, is Rs. 16,839.82 Lacs and for consolidated is Rs. (13,198.84) Lacs											
NOTES: 1) The above is an extract of the detailed format of quarter & half year ended 30.09.2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter & half year ended 30.09.2025 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chl.co.in). 2) The results for the quarter & half year ended 30.09.2025 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company. 3) The above results can be viewed on the website of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).											
Place : New Delhi Date : 10 th November, 2025										By Order of the Board CHL LIMITED Sd/- (Luv Malhotra) Managing Director DIN 00030477	

<div><div><div>YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD.</div><div>Regd Office: 303, Morya Landmark I, Opp Infiniti Mall, Off. New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400053 CIN: L65920MH1993PLC073309</div></div><div>Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2025</div></div>											
(Rs. In Lakhs)											
Sr. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	361.82	473.67	773.71	835.49	2,067.67	3,074.78	376.96	489.11	866.07	2,092.51
2.	Net Profit/(Loss) before Exceptional items and Tax	(104.57)	14.68	(252.81)	(89.89)	(126.71)	(216.21)	(75.68)	25.07	(240.08)	(50.61)
3.	Net Profit/(Loss) before tax after Exceptional items	(104.57)	14.68	(252.81)	(89.89)	(126.71)	(216.21)	(75.68)	25.07	(240.08)	(50.61)
4.	Net Profit/(Loss) after tax	(102.72)	12.83	(213.27)	(89.89)	(126.71)	(216.21)	(73.83)	23.22	(200.54)	(50.61)
5.	Total Comprehensive Income for the period net of tax	(92.65)	52.64	(188.14)	(40.01)	(80.06)	(177.90)	(63.76)	63.03	(175.42)	(0.73)
6.	Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- per share)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve	-	-	-	807.06	-	847.07	-	-	479.56	-
8.	Earnings Per Share 1. Basic & Diluted:	(0.55)	0.31	(1.11)	(0.24)	(0.47)	(1.05)	(0.44)	0.35	(1.06)	(0.09)
Notes: 1. The above unaudited consolidated and standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10 th November, 2024 pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations 2015 (as amended). The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended). 2. The above is the extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Bombay Stock Exchange Limited under regulation 33 SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of Quarterly /Annual Financial Results are available at www.bseindia.com and www.yashmanagement.in .											
Place: Mumbai Date: 10 th November, 2025										By order of the Board For Yash Management and Satellite Ltd Sd/- Yash Gupta Managing Director DIN:07638743	

ELCID INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65990MH1981PLC025770

Regd. Office: 414,Shah Nahar (Worli) Industrial Estate, B-Wing, Dr. E. Moses Rd, Worli, Mumbai - 400 018. Tel. No.: 022-6662 5602, Fax: 022-6662 5605
E-mail: vakilgroup@gmail.com website: www.elcidinvestments.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2025

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE					
		Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	4,947.92	4,048.58	3,568.29	8,996.50	14,947.79	13,842.93
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)	4,880.85	4,006.48	3,535.91	8,887.32	14,851.51	13,567.01
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	4,880.85	4,006.48	3,535.91	8,887.32	14,851.51	13,567.01
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	3,678.59	3,121.05	2,807.05	6,799.64	11,522.51	10,097.15
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & Other comprehensive Income (after tax)]	6,064.67	3,429.34	1,12,094.56	9,494.01	1,40,186.70	(1,75,583.92)
6	Equity Share Capital	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
7	Basic and Diluted Earnings Per Share of Rs.10/- each (not annualised)-	1,839.29	1,560.53	1,403.53	3,399.82	5,761.26	5,048.57

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2025


(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	CONSOLIDATED					
		Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	4,398.42	9,197.01	5,634.66	13,595.43	23,388.05	21,113.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)	4,248.83	9,115.54	5,548.60	13,364.37	23,204.59	20,604.97
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	4,248.83	9,115.54	5,548.60	13,364.37	23,204.59	20,604.97
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	3,173.95	7,062.36	4,347.42	10,236.31	17,942.10	15,299.56
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & Other comprehensive Income (after tax)]	6,647.27	7,541.95	1,61,111.83	14,189.22	2,02,039.90	(2,51,548.74)
6	Equity Share Capital	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
7	Basic and Diluted Earnings Per Share of Rs.10/- each (not annualised)-	1,586.97	3,531.18	2,173.71	5,118.15	8,971.05	7,649.78

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of the statement of Standalone and consolidated Financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of SEBI (Listing & other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the statement of Standalone and consolidated financial results are available on www.bseindia.com & www.elcidinvestments.com

By Order of the Board of Directors
For ELCID INVESTMENTS LIMITED
Sd/-
AMRITA VAKIL
WHOLE-TIME DIRECTOR
DIN: 00170725

Place: Mumbai.
Date: 07th November, 2025.



AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED

REGD. OFF: A-408, Express Zone, A Wing, Cello- Sonal Realty Near Patel's, Western Express Highway Goregaon (E), Mumbai-400063.
CIN : L74140MH1986PLC041941 Tel : 022 - 67160400 Fax: 28722062
Website : www.ajcononline.com Email : ajcon@ajcon.net

■ Stock & Currency Brokers ■ DP ■ Merchant Bankers ■ Corporate Advisors

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2025

(₹. in Lacs except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30.09.2025	30.09.2025	30.09.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	1060.47	1327.99	593.83
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	40.61	65.68	97.44
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40.61	65.68	97.44
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.30	49.05	72.91
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	28.74	47.28	71.76
6.	Equity Share Capital (Face Value per share Rs. 1/- each)	611.62	611.62	611.62
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1902.34	1902.34	1902.34
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (Basic & Diluted)	0.05 0.04	0.08 0.07	0.12 0.10


Brief of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2025 is as follows:

(₹. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30.09.2025	30.09.2025	30.09.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Sincome from Operations	357.00	594.18	566.39
2.	Profit Before Tax	29.15	51.23	87.62
3.	Profit After Tax	21.81	38.33	65.57

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held today i.e. Monday, 10.11.2025.

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and Half Year ended 30.09.2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2025 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and on Company's website i.e. www.ajcononline.com



For Ajcon Global Services Ltd.
Sd/-
Kaushal Shukla
Company Secretary
A39234

Date : 10.11.2025
Place : Mumbai

SHREE MARUTI APARTMENT CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Reg. No. BOM/WT/HSG/TC/8750 Year 2002-2003 Dated 22/01/2002

Maharashtra Seva Sangh Marg, Behind Apna Bazar, J.N. Cross Road, Mulund West, Mumbai 400 080

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE
(Application No. 10/2025)

Notice is hereby given that the above Society has applied to this office under Section 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale, management & Transfer) Act, 1963 for declaration of Unilateral Deemed Conveyance of the following properties. The next hearing in this matter has been kept before me on **25/11/2025 at 4.00 pm** at the office of this authority.

Respondent: 1) Messrs. Sadanand Builders, Having address at Kirjalk apartment, next to Balaji Mandir, Dr. Ambedkar Road, Mulund (West), Mumbai-400 080. **2) Shri Keshav Atmaram Ovalekar** Having address at Ovalekar Building, Parsi Agiari Lane, Thane - 400 601. **3) Shri Dattatraya Atmaram Ovalekar** and, Having address at Ovalekar Building, Parsi Agiari Lane, Thane - 400 601. **4) Wing Commander Rajan Keshav Ovalekar** Having address at Ovalekar Building, Parsi Agiari Lane, Thane - 400 601 **5) Shri Baburao Anaji Badgujar** Having address at Badgujar House, Maruti Apartment, Behind Apna Bazaar, Mulund (West), Mumbai-400 080. **6) Smt. Vimal Baburao Badgujar** Having address at Badgujar House, Maruti Apartment, Behind Apna Bazaar, Mulund (West), Mumbai-400 080. **7) Shri Ramesh Kisan Badgujar**, Having address at Badgujar House, Maruti Apartment, Behind Apna Bazaar, Mulund (West), Mumbai-400 080. **8) Shree Ganesh Co-operative Housing Society Ltd.**, Having address at Maharashtra Seva Sangh Marg, Mulund (West), Mumbai-400 080. **9) Shri Parmanand K. Sachde** Having address at Shree Ganesh Co-operative Housing Society Ltd., Maharashtra Seva Sangh Marg, Behind Apna Bazar, J. N. Cross Road, Mulund (West), Mumbai-400080 and those whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned below. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:-
Building of Shree Maruti Apartment Co-operative Housing Society Ltd. along with land as mention below

Survey No.	Hissa No.	Plot No.	C.T.S. No.	Claimed Total Area
			1459 (269.60 Sq. Mtrs.), 1460/A (2143.60 Sq. Mtrs.), 1460/B (116.80 Sq. Mtrs.), 1461 (743.00 Sq. Mtrs), 1461/1 (10.40 Sq. Mtrs.), 1461/2 (19.70 Sq. Mtrs.), 1461/3 (17.50 Sq. Mtrs.), Village Mulund West, Taluka Kurla	3320.60 sq.m.

Ref.No.MUM/DDR(2)/Notice/ 27032025

Place Konknan Bhavan,

Competent Authority & District Dy. Registrar,

Co-operative Societies (2), East Suburban,

Mumbai Room No. 201, Konknan Bhavan,


CBD-Belapur, Navi Mumbai-400614

Date: 10/11/25 Tel.-022-27574965

Email: ddr2coopmumbai@gmail.com

SEAL

Sd/-
(Kiran Sonawane)
For Competent Authority &
District Dy. Registrar, Co.op. Societies (2),
East Suburban, Mumbai



एपिग्राल

दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 37 प्रतिशत घटा

₹ 1,652.1 पिछला बंद भाव

₹ 1,526.8 आज का बंद भाव

-7.6 % ▼

संक्षेप में

वरुण बेरी का ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से इस्तीफा

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी के पद से वरुण बेरी ने इस्तीफा दे दिया है। बेरी 13 वर्षों से ब्रिटानिया में थे। शेयर बाजार को दी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है।

गूगल के प्रभु रामभद्रन रेजरपे में नियुक्त

फिन्टेक कंपनी रेजरपे ने प्रभु रामभद्रन को इंजीनियरिंग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दो दशकों से अधिक के अनुभव वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज रामभद्रन इंजीनियरिंग टीमों और उद्यम स्तरीय प्रणालियों के निर्माण और विस्तार की गहरी समझ रखते हैं। वे गूगल क्लाउड से रेजरपे में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने क्लाउड सुरक्षा, गूगल के एपीआई प्रबंधन समाधान और कई उद्यम सॉफ्टवेयर उत्पादों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की अगुआई की।

बीएस

भाषा

वोडा-आइडिया का घाटा घटा

बीएस संवाददाता और भाषा नई दिल्ली/मुंबई, 10 नवंबर

सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया (वी) का समेकित शुद्ध घाटा घटकर 5,584 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही (वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही) में 7,176 करोड़ रुपये था। घाटे में यह कमी उद्योग जगत की मौजूदा चुनौतियों के बावजूद कंपनी के परिचालन में सुधार को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में राजस्व 2.4 फीसदी बढ़कर 11,194.7 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 10,932 करोड़ रुपये था। एबिटा 4,685 करोड़ रुपये रहा, जो 4,550 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त की लागत घटकर 4,784 करोड़ रुपये रह गई, जो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,613.6 करोड़ रुपये थी।

वी के मुख्य कार्याधिकारी अभिजित किशोर ने कहा, 'हम अपना 4जी कवरेज बढ़ाकर 90 फीसदी आबादी तक पहुंचाने और 5जी हैंडसेटों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ क्षेत्रों में 5जी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम 500-550 अरब रुपये की अपनी व्यापक



पूंजीगत व्यय योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऋणदाताओं के साथ जुड़े हुए हैं।'

जिंदल स्टेनलेस के शुद्ध लाभ में 32 प्रतिशत की उछाल

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 32

प्रतिशत बढ़कर 808 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बयान में कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 609 करोड़ रुपये था। बयान के अनुसार, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय 12 प्रतिशत बढ़कर 10,982.46 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान अवधि में 9,823.88 करोड़ रुपये थी। बिक्री मात्रा भी 15 प्रतिशत बढ़कर 6,48,050 टन हो गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 5,64,627 टन थी।

इमामी के शुद्ध लाभ में 29.7 प्रतिशत की गिरावट

रोजमर्रा की जरूरत का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली घरेलू कंपनी इमामी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 29.7 प्रतिशत घटकर 148.35 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद में अस्थायी रूप से बिक्री घटने और कुछ उत्पाद श्रेणियों पर अत्यधिक बारिश के प्रभाव के कारण उसका मुनाफा कम हुआ।

केपीआईटी का शुद्ध मुनाफा 17 प्रतिशत लुढ़का

मझौली श्रेणी की आईटी सेवा कंपनी केपीआईटी का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 17 प्रतिशत घटकर 169 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले इसी तिमाही में उसे 203.7 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मुनाफे में यह गिरावट संयुक्त उद्यम में लगभग 23 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण हुई। परिचालन राजस्व लगभग 8 प्रतिशत बढ़कर 1,587.7 करोड़ रुपये हो गया।

हुडको का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 3 प्रतिशत मजबूत

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) ने सोमवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ तीन प्रतिशत बढ़कर 710 करोड़ रुपये हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 689 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

बजाज फाइनेंस का शुद्ध मुनाफा 24 प्रतिशत नीचे आया

बजाज फाइनेंस ने सोमवार को बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ एकल आधार पर 24 फीसदी घटकर 4,251 करोड़ रुपये रह गया। इसका कारण कर्ज के नुकसान को लेकर ज्यादा प्रावधान था। पिछले वर्ष की इसी अवधि में वित्तीय कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इक्विटी शेयरों की बिक्री के कारण 2,544 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ दर्ज किया था। एकीकृत आधार पर बजाज फाइनेंस का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 4,948 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

नोवो नॉर्डिस्क ने एम्क्योर फार्मा के साथ किया करार

संकेत कौल

नई दिल्ली, 10 नवंबर

डेनमार्क की दवा बनाने वाली नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में एम्क्योर फार्मास्यूटिकल्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने यह साझेदारी भारत में वजन घटाने वाली दवा वीगोवी के एक अलग ब्रांड के तौर पर बेचे जाने वाले 2.4 मिलीग्राम (एमजी) सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन पोविजट्टा के व्यवसायीकरण के वास्ते की है।

इस समझौते के तहत एम्क्योर खासतौर पर पोविजट्टा का वितरण और विपणन करेगी, जिससे

सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन के अधिकार हासिल करने वाली यह पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। सेमाग्लूटाइड एक ग्लूकागन जैसा पेप्टाइड-1 (जीएलपी-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट और वेगोवी का सक्रिय घटक है, जो पहले से भरे इंजेक्शन पेन के जरिये सप्ताह में एक बार दिया जाता है। इसे लंबे समय तक वजन कम करने के लिए आहार और व्यायाम के सहायक के रूप में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, यह मोटापे और हृदय रोगियों में प्रमुख हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है।

ग्लेनमार्क को नेजल स्प्रे के लिए चीन में मंजूरी

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्लेनमार्क स्पेसोलिटी एसए ने रयाल्टिस कम्पाउंड नेजल स्प्रे के लिए चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन (एनएमपीए) से मंजूरी हासिल कर ली है। दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा बाजारों में से एक में यह उसके विशेष रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण विस्तार है। नेजल स्प्रे को छह वर्षों और उससे अधिक आयु के वयस्कों और बच्चों में मध्यम से गंभीर मौसमी एलर्जिक राइनिटिस और 12 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों में मध्यम से गंभीर पेरिनयल एआर के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है।

बीएस

बोल्ट डॉट अर्थ की नजर मुनाफे पर

सोहिनी दास

मुंबई, 10 नवंबर

भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग नेटवर्क मुहैया कराने वाली बेंगलुरु स्थित कंपनी बोल्ट डॉट अर्थ को उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2027 में लाभ की स्थिति में आ जाएगी और 2027 या 2028 की शुरुआत में आईपीओ लाएगी। ईवी को अपनाने का चलन महानगरों से आगे बढ़कर टियर-2 और 3 शहरों में भी तेजी से बढ़ रहा है।

कंपनी के सीईओ एस राघव भारद्वाज का दावा है कि यह मुनाफे में आने वाली पहली ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रदाता होगी। 1800 शहरों और कस्बों (लक्षदीप सहित) में 1,00,000 से ज्यादा चार्जर लगाने के बाद कंपनी का लक्ष्य 2028 तक सालाना 10 लाख चार्जर लगाना है, क्योंकि यह विकास के अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है।

उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक हम मुनाफे में आ जाएंगे और इससे हमें आईपीओ की तैयारी शुरू करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलेगा है। हम और हमारे निवेशक, दोनों ही 2027 के आसपास या 2028 की शुरुआत में संभावित लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, पहले से ही सार्वजनिक ईवी चार्जिंग कंपनियां मौजूद हैं और मुझे लगता है कि भारत भी ईवी अपनाने के पैमाने के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।'

उन्होंने कहा, 'आज, भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। एक बार जब हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पेट्रोल वाहनों से अधिक हो जाएगी, तो बाजार रॉकेट की तरह तेजी से उड़ान भरेगा और तब चार्जिंग इकोसिस्टम वास्तव में फलेगा-फूलेगा। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे प्रयासों के बावजूद, मैंने अभी तक दुनिया में कहीं भी एक भी लाभदायक



इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कंपनी नहीं देखी है। इस क्षेत्र में लाभप्रदता हासिल करना हमें एक खास स्थिति में रखता है।'

भारद्वाज ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व 50 लाख डॉलर रहने की संभावना है, जो अगले वित्त वर्ष में चार गुना बढ़कर 2 करोड़ डॉलर हो जाएगा। उनका कहना है कि निवेश पर बेहतर रिटर्न (आरओआई) और लाभप्रदता की राह का कारण इसका बिजनेस मॉडल है।

भारद्वाज का कहना है कि उनके नेटवर्क में उनकी औसत उपयोग दर लगभग 18-20 प्रतिशत है।

लगभग 60 प्रतिशत नए तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हैं, जबकि दोपहिया वाहनों में ईवी की पहुंच 40 प्रतिशत तक हो गई है। लगभग 90-95 प्रतिशत चार्जिंग अब घरों, कार्यालयों और निजी स्थानों पर होती है। बोल्ट.अर्थ ने पहले दोपहिया और तिपहिया चार्जिंग पर ध्यान केंद्रित किया, फिर चार पहिया फास्ट चार्जिंग सेवा का विस्तार किया।

इसने हाल में उसने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बनाया गया ब्लेज डीसी फास्ट चार्जर लॉन्च किया है, जो सभी ओईएम और प्रोटोकॉल (टाइप 6, टाइप 7 चार्जिंग) पर काम करता है।

1 प्रतिशत प्रति मिनट की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ एक वाहन 15 मिनट में 40-50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। स्विगी, जेप्टो, रैपिडो जैसे प्लैटि ऑपरेटर इसके लक्षित क्षेत्र होंगे। भारद्वाज का कहना है कि ब्लेज डीसी चार्जर्स आगामी नेटवर्क का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होंगे।

शैलेश चंद्रा ओआईसीए प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय

अंजलि सिंह

मुंबई, 10 नवंबर

ऑर्गनाइजेशन इंटरनैशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स (ओआईसीए) ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सायम) के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा को 1 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। वह एलार्सेंस फॉर ऑटोमोटिव इन्वोवेशन, अमेरिका के अध्यक्ष और सीईओ जॉन बोजेला का स्थान लेंगे।

चंद्रा ओआईसीए का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो वैश्विक ऑटोमोटिव निर्णय लेने में भारत की उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा, 'भारत से पहला ओआईसीए अध्यक्ष बनना सम्मान की बात है। इससे संगठन का वैश्विक प्रतिनिधित्व जाहिर होता है।' उन्होंने कहा कि उद्योग सतत गतिशीलता और नेट-जीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय विविधता को स्वीकार करने में ओआईसीए की भूमिका अहम होगी क्योंकि हम सब मिलकर अपने वाहनों को अधिक आकांक्षी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं।

अक्टूबर में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री ने पकड़ी जोरदार रफ्तार

देश के वाणिज्यिक वाहन बाजार में अक्टूबर में त्योहारों के दौरान दमदार सुधार देखा गया। इस कारण खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 17.7 प्रतिशत बढ़कर 1,07,841 हो गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाएडी) ने यह जानकारी दी है। जीएसटी दर में कटौती, और उपभोक्ताओं की मांग और माल ढुलाई तथा बुनियादी ढांचा गतिविधियों में सुधार के कारण यह दो वर्षों में महामारी के बाद खुदरा बिक्री का सबसे दमदार प्रदर्शन रहा। कई सुस्त तिमाहियों के बाद हल्के

वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी में तेजी आई। इसे त्योहारी खरीदारी, माल ढुलाई की बेहतर उपलब्धता, ग्रामीण लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स गतिविधियों में तेजी से मदद मिली। मझौले और भारी वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों ने भी मौजूदा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, बड़े के प्रतिस्थापन और अंतरराज्यीय यात्री आवाजाही में बढ़ोतरी के बल पर रफ्तार पकड़ी। इलेक्ट्रिफिकेशन के मोर्चे पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पंजीकरण पहली बार 2,00,000 का आंकड़ा पार कर गया।

बीएस